

Objection of Questions प्रश्न पर आपत्त

- You are required to upload your objections along with supporting authentic reference document against each question and answer. In absence of support document, objection shall not be entertained.
आप प्रत्येक प्रश्न और उत्तर के सापेक्ष पुष्टिकारक अभिलेखों के साथ आपत्तियाँ प्रस्तुत कर सकते हैं। पुष्टिकारक एवं प्रमाणिक साक्ष्यों के अभाव में आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- Support document must be uploaded only in JPG and PDF files (maximum 3 MB size).
पुष्टिकारक अभिलेख केवल JPG और PDF फाइलों में अपलोड की जा सकती हैं। (अधिकतम 3 MB साइज)
- Objections raised through any other mode or after due date shall not be entertained.
किसी अन्य माध्यम से प्रेषित या निर्धारित तिथि के बाद प्रेषित आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- * Mandatory
* अनिवार्य

UP Police Constable 25 Aug 2024 2nd Shift Answer Key

Q.No प्रश्न संख्या	Question सवाल	Key उत्तर	Objection Type आपत्ति का प्रकार *	Explain what is wrong? बताएं कि क्या गलत है *	Reference Document सन्दर्भ दस्तावेज़
1	'अचल' शब्द का समभिप्रायक क्या है? (A) स्थान (B) धुरी (C) पर्वत और स्थिर (D) जन्म से	C	--Select--		Choose File No file chosen Submit Objection
2	निम्न में से कौन-सा शब्द 'गौ' का अर्थ नहीं है ? (A) इन्द्रिय (B) गज (C) गाय (D) नदी	B	--Select--		Choose File No file chosen Submit Objection
3	'प्रेरणा स्टूडियो जाएगी' - में काल का भेद बताइए। (A) सम्भाव्य भविष्यत् काल (B) अपूर्ण वर्तमानकाल (C) सामान्य वर्तमानकाल (D) सामान्य भविष्यत् काल	D	--Select--		Choose File No file chosen Submit Objection
4	निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का कौन-सा कारक है ? 'अनुज की किताय मेज पर है।' (A) संबोधन कारक (B) अधिकरण कारक (C) संबंध कारक (D) अपादान कारक	C	--Select--		Choose File No file chosen Submit Objection
5	श्याम को पुस्तक पढ़नी है। यह किस वाक्य में है ? (A) कर्तृ और कर्मवाच्य (B) कर्मवाच्य (C) भाववाच्य (D) कर्तृवाच्य	B	--Select--		Choose File No file chosen Submit Objection
6	वह छि साहित्यकार कारीनाथ सिंह को उनकी कृति 'रहन पर सधु' के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया ? (A) राजभाषा सम्मान (B) शद्द जोशी (C) साहित्य अकादमी (D) कथा सम्मान	C	--Select--		Choose File No file chosen Submit Objection
7	'गो' शब्द का वचन पहचानिए। (A) बहुवचन (B) सदा एकवचन (C) सदा बहुवचन (D) एकवचन	D	--Select--		Choose File No file chosen Submit Objection
8	'कामायनी' के रचनाकार है : (A) सुर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' (B) महादेवी वर्मा (C) जयशंकर प्रसाद (D) सुमित्रानन्दन पंत	C	--Select--		Choose File No file chosen Submit Objection
9	निम्न में से कौन-सा शब्द तत्सम है ? (A) आग (B) आसरा (C) आलस्य (D) आम	C	--Select--		Choose File No file chosen Submit Objection
10	वह कौन-सा समास है जिसका उतर पद प्रधान होता है, किन्तु प्रथम पद की विशेषता बतलाता है ? (A) कर्मधारय समास (B) बहुव्रीहि समास (C) अव्ययीभाव समास (D) तत्पुरुष समास	A	--Select--		Choose File No file chosen Submit Objection
11	जानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है ? (A) बर्मिल से (B) संविधान की आठवीं अनुसूची को सभी भाषाओं से (C) हिन्दी से (D) संस्कृत से	B	--Select--		Choose File No file chosen Submit Objection
12	निम्नलिखित में से कौन-सा स्वर नहीं है ? (A) ए (B) अ (C) अ (D) उ	B	--Select--		Choose File No file chosen Submit Objection
13	निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। (A) विदुषी महिला थी वह। (B) वह एक विद्वान महिला थी। (C) वह एक महिला विद्वान थी। (D) वह एक विदुषी महिला थी।	D	--Select--		Choose File No file chosen Submit Objection
14	'जिसकी तुलना न की जा सके' वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा : (A) अन्यमनस्क (B) तुलनीय (C) अनुपम (D) अतुलनीय	D	--Select--		Choose File No file chosen Submit Objection
15	'मीन' का विलोम शब्द है : (A) मयंक (B) विकार (C) मुखर (D) मौखिक	C	--Select--		Choose File No file chosen Submit Objection
16	'यामा' के रचयिता हैं : (A) महादेवी वर्मा (B) मीराबाई (C) सुमित्रानन्दन पंत (D) सुभद्रा कुमारी चौहान	A	--Select--		Choose File No file chosen Submit Objection
17	'संलि-संलि' युग का उपयुक्त अर्थ वाला युग कौन-सा होगा ? (A) शुक्र-बृहस्पति (B) देवलय-अस्वराज्य (C) पूजापर-पुजारी (D) पर-स्वारी	B	--Select--		Choose File No file chosen Submit Objection
18	कौन-सा वाक्य शुद्ध है ? (A) वृक्षों पर कोयल कूक रही है। (B) खेतों में लम्बे-लम्बे धूस उग आए। (C) गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। (D) परलुप्त के क्रोधार्ति ने क्षत्रियों को जला दिया।	C	--Select--		Choose File No file chosen Submit Objection
19	इ, ई, उ, ऊ किस प्रकार के स्वर हैं ? (A) विवृत (B) अर्द्धविवृत (C) संवृत (D) अर्द्धसंवृत	C	--Select--		Choose File No file chosen Submit Objection
20	निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है : (A) पढ़ना (B) बदलना (C) चलना (D) जगना	D	--Select--		Choose File No file chosen Submit Objection

38	<p>हाल ही में, किस मिशन को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल. 'जैक' स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार मिला ? (A) मार्स ऑर्बिटर मिशन (B) गगनयान मिशन (C) चंद्रयान-2 मिशन (D) चंद्रयान-3 मिशन Recently, which mission received the 2024 John L. 'Jack' Swigert Jr. Award for space exploration ? (A) Mars Orbiter Mission (B) Gaganyaan Mission (C) Chandrayaan-2 Mission (D) Chandrayaan-3 Mission</p>	D	--Select--	<input type="text"/>	<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen <input type="button" value="Submit Objection"/>
39	<p>कौन सा देश 2021 में बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में उपयोग करने वाला पहला देश बन गया ? (A) अल साल्वाडोर (B) स्विट्जरलैंड (C) वेनेजुएला (D) जापान Which country became the first to make use of Bitcoin as a legal tender in 2021 ? (A) El Salvador (B) Switzerland (C) Venezuela (D) Japan</p>	A	--Select--	<input type="text"/>	<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen <input type="button" value="Submit Objection"/>
40	<p>उत्तर प्रदेश से उत्पन्न कौन सा पारंपरिक नृत्य रूप अपने नाटकीय कहानी करने और जटिल फुटवर्क के लिए पहचाना जाता है ? (A) कथक (B) छौ (C) कुचिपुडी (D) भरतनाट्यम Which traditional dance form originating from Uttar Pradesh is recognized for its dramatic storytelling and intricate footwork ? (A) Kathak (B) Chhau (C) Kuchipudi (D) Bharatnatyam</p>	A	--Select--	<input type="text"/>	<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen <input type="button" value="Submit Objection"/>
41	<p>प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) क्या है ? (A) पारंपरिक-बीकई ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार करता है और कृषि समुदायों में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करता है। (B) यह कृषि बाजारों को नियंत्रित करता है और किसानों को उपज के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करता है। (C) कृषि क्षेत्र में सस्टेनेबल उत्पादन का समर्थन करता है। (D) वीकिक खेती प्रथाओं का समर्थन और बढ़ावा देता है और स्थानीय कृषि विधियों को अपनाने के लिए किसानों को सक्षम बनाता है। What is the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) ? (A) PMFBY improves rural infrastructure and provides employment opportunities to youth in agricultural communities. (B) It regulates agricultural markets and ensures fair prices for farmers' produce. (C) Supports sustainable production in the agriculture sector. (D) Supports and promotes organic farming practices and provides subsidies to farmers for the adoption of sustainable agricultural methods.</p>	C	--Select--	<input type="text"/>	<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen <input type="button" value="Submit Objection"/>
42	<p>कौन सा देश अपने अनेक भ्वास्तमुखी परिदृश्य के कारण भू-वाणीय ऊर्जा के व्यापक उपयोग के लिए जाना जाता है ? (A) ऑस्ट्रेलिया (B) ब्राज़िल (C) नॉर्वे (D) आइसलैंड Which country is known for its extensive use of geothermal energy due to its unique volcanic landscape ? (A) Australia (B) Brazil (C) Norway (D) Iceland</p>	D	--Select--	<input type="text"/>	<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen <input type="button" value="Submit Objection"/>
43	<p>विश्वीय वा बैंकिंग प्रणाली को प्रत्येक वर्ष _____ करोड़ आधार मुद्रा के संदर्भ में अतिरिक्त बढ़ावा मिलेगा। (A) 1-2 लाख (B) 10-11 लाख (C) 7-8 लाख (D) 4-5 लाख The financial or the banking system will receive an additional boost in terms of _____ Crore of base money each year. (A) 1-2 lakh (B) 10-11 lakh (C) 7-8 lakh (D) 4-5 lakh</p>	C	--Select--	<input type="text"/>	<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen <input type="button" value="Submit Objection"/>
44	<p>श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है ? (A) क्यात (B) रिंगिट (C) रूपी (D) यूरो The national currency of Sri Lanka is : (A) Kyat (B) Ringgit (C) Rupee (D) Euro</p>	C	--Select--	<input type="text"/>	<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen <input type="button" value="Submit Objection"/>
45	<p>भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है ? (A) छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय, मुंबई (B) सालार जंग संग्रहालय, हैदराबाद (C) भारतीय संग्रहालय, कोलकाता (D) राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली Which is the largest museum in India ? (A) Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya, Mumbai (B) Salar Jung Museum, Hyderabad (C) Indian Museum, Kolkata (D) National Museum, New Delhi</p>	C	--Select--	<input type="text"/>	<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen <input type="button" value="Submit Objection"/>
46	<p>शहरी क्षेत्रों से उपग्रहों को ओर पलायन करने वाले आर्थिक रूप से सुरक्षित क्षेत्र लोगों को कहा जाता है : (A) प्रवासन (B) अग्रवासन (C) सफेद उड़ान (D) काली उड़ान The economically secure white people migrated from urban areas to suburbs is called : (A) Migration (B) Immigration (C) White flight (D) Black flight</p>	C	--Select--	<input type="text"/>	<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen <input type="button" value="Submit Objection"/>
47	<p>ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर "वेरिफाईड अकाउंट" क्या दर्शाता है ? (A) खाते में अनुयायियों की संख्या अधिक है (B) खाते का उपयोग विज्ञापन के लिए किया जाता है (C) खाते का अक्सर उपयोग किया जाता है (D) खाता एक खर्चबिन व्यक्ति या संगठन से संबंधित है और प्रमाणित है What does "verified account" signify on social media platforms like Twitter and Instagram ? (A) The account has a high number of followers (B) The account is used for advertising (C) The account is frequently used (D) The account belongs to a public figure or organization and is authenticated</p>	D	--Select--	<input type="text"/>	<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen <input type="button" value="Submit Objection"/>
48	<p>1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन थे ? (A) लॉर्ड माउन्टबेटन (B) लॉर्ड इरविन (C) लॉर्ड लिलिथगो (D) लॉर्ड वेवेल Who was the Viceroy of India at the time of the Quit India Movement in 1942 ? (A) Lord Mountbatten (B) Lord Irwin (C) Lord Linlithgow (D) Lord Wavell</p>	C	--Select--	<input type="text"/>	<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen <input type="button" value="Submit Objection"/>
49	<p>मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का किननी भाषाओं में अनुवाद किया गया है ? The Universal Declaration of Human Rights is translated into how many languages ? (A) 400 (B) 500 (C) 300 (D) 200</p>	B	--Select--	<input type="text"/>	<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen <input type="button" value="Submit Objection"/>
50	<p>कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज पर पेरुलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है ? (A) भारत पेट्रोलियम (B) नेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (C) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (D) भारतीय गैस प्रधिकरण लिमिटेड (GAIL) Which company has become the first company in India to trade domestic gas on Indian Gas Exchange ? (A) Bharat Petroleum (B) Oil and Natural Gas Corporation Ltd. (C) Indian Oil Corporation Limited (D) Gas Authority of India Limited (GAIL)</p>	B	--Select--	<input type="text"/>	<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen <input type="button" value="Submit Objection"/>
51	<p>2014 में भारत में नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्राप्त किया ? (A) कालिश सत्यार्थी (B) मदर टेरेसा (C) नादिया मुरद (D) अमर्त्य सेन Who received the Nobel Peace Prize in 2014 in India ? (A) Kalilash Satyarthi (B) Mother Teresa (C) Nadia Murad (D) Amartya Sen</p>	A	--Select--	<input type="text"/>	<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen <input type="button" value="Submit Objection"/>
52	<p>किस दिन को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है ? (A) मार्च का पहला मंगलवार (B) जनवरी का तीसरा शनिवार (C) मई का पहला दिन (D) मार्च का दूसरा बुधवार Which day is observed as No Smoking Day ? (A) First Tuesday of March (B) Third Saturday of January (C) First Day of May (D) Second Wednesday of March</p>	D	--Select--	<input type="text"/>	<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen <input type="button" value="Submit Objection"/>

53	<p>ASEAN (आसियन) के संबंध में भारत को 'एक्ट ईस्ट' नीति का क्या महत्व है ?</p> <p>(A) व्यापार के अवसर कम करती है (B) कूटनीतिक सहभागिता को सीमित करती है (C) अलग-अलग नीतियों को बढ़ावा देती है (D) दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देती है</p> <p>In relation to ASEAN, what is the importance of India's Act East policy ? (A) Reduces trade opportunities (B) Limits diplomatic engagement (C) Promotes isolationist policies (D) Enhances economic, strategic, and cultural ties with Southeast Asian countries</p>	D	--Select--	<input type="text"/>	<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen <input type="button" value="Submit Objection"/>
54	<p>कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है ? Which international treaty focuses on the rights of children ?</p> <p>(A) CRC (B) CEDAW (C) ICCPR (D) ICERD</p>	A	--Select--	<input type="text"/>	<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen <input type="button" value="Submit Objection"/>
55	<p>भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस महीने में मनाया जाता है ? National Milk Day is observed in India, in which month ?</p> <p>(A) नवंबर (B) दिसंबर (C) जून (D) सितम्बर (A) November (B) December (C) June (D) September</p>	A	--Select--	<input type="text"/>	<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen <input type="button" value="Submit Objection"/>
56	<p>रियल किस देश की मुद्रा है ? Real is the currency of which country ?</p> <p>(A) अफगानिस्तान (B) भूटान (C) कनाडा (D) ब्राज़िल (A) Afghanistan (B) Bhutan (C) Canada (D) Brazil</p>	D	--Select--	<input type="text"/>	<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen <input type="button" value="Submit Objection"/>
57	<p>वर्ष 2021 में मार्च के अंत में प्रचलित 2000 रुपये के नोटों का मूल्य (रुपये इतिलियन में) क्या है ? What is the value (in INR trillion) of Rs. 2000 notes circulated at the end of March in the year 2021 ?</p> <p>(A) 1.90 (B) 2.00 (C) 6.00 (D) 4.90</p>	D	--Select--	<input type="text"/>	<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen <input type="button" value="Submit Objection"/>
58	<p>SAARC का मतलब क्या है ?</p> <p>(A) साउथ अफ्रीकन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपेरेशन (B) साउथ-ईस्ट एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपेरेशन (C) साउथ अमेरिकन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपेरेशन (D) साउथ एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपेरेशन</p> <p>SAARC stands for :</p> <p>(A) South African Association for Regional Cooperation (B) Southeast Asian Association for Regional Cooperation (C) South American Association for Regional Cooperation (D) South Asian Association for Regional Cooperation</p>	D	--Select--	<input type="text"/>	<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen <input type="button" value="Submit Objection"/>
59	<p>लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है ?</p> <p>(A) लोकसभा अध्यक्ष (B) भारत के मुख्य न्यायाधीश (C) प्रधानमंत्री (D) राष्ट्रपति</p> <p>Who has the power to dissolve Lok Sabha ? (A) Speaker of Lok Sabha (B) Chief Justice of India (C) Prime Minister (D) President</p>	D	--Select--	<input type="text"/>	<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen <input type="button" value="Submit Objection"/>
60	<p>अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ITC का पूर्ण रूप क्या है ?</p> <p>(A) इनपुट टैक्स क्रेडिट (B) इंटरनेशनल टैक्स कंपनी (C) इंटरनल ट्रेड कामर्स (आंतरिक व्यापार वाणिज्य) (D) इंटरनल टैक्स कामर्स (आंतरिक कर वाणिज्य)</p> <p>In terms of economy, what is the full form of ITC ? (A) Input Tax Credit (B) International Tax Company (C) Internal Trade Commerce (D) Internal Tax Commerce</p>	A	--Select--	<input type="text"/>	<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen <input type="button" value="Submit Objection"/>
61	<p>निम्नलिखित में से कौन महत्वा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) की एक विशेषता है ? Which of the following is a feature of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) ?</p> <p>(A) निजी क्षेत्र में रोजगार को प्रोत्साहित करना (B) केवल कुशल श्रमिकों को लक्ष्य करना (C) शहरी रोजगार उपलब्ध करना (D) प्रति वर्ष 100 दिन के वेतन रोजगार की गारंटी</p> <p>(A) Offering employment in the private sector (B) Targeting only skilled labor (C) Providing urban employment (D) Guaranteeing 100 days of wage employment per year</p>	D	--Select--	<input type="text"/>	<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen <input type="button" value="Submit Objection"/>
62	<p>नीतिविज्ञानी कौन हैं ?</p> <p>(A) वैज्ञानिक जो मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करते हैं (B) वैज्ञानिक जो केवल पौधों का अध्ययन करते हैं (C) वैज्ञानिक जो लोकाचार का अध्ययन करते हैं (D) वैज्ञानिक जो जंगली जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं</p> <p>Who are ethologists ? (A) Scientists who study the behaviour of humans (B) Scientists who study only plants (C) Scientists who study ethos (D) Scientists who study the behaviour of wild animals</p>	D	--Select--	<input type="text"/>	<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen <input type="button" value="Submit Objection"/>
63	<p>राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 किस कर नीति पर लागू होता है ? National Highways Act, 1956 is applied to which tax policy ?</p> <p>(A) व्यावसायिक कर (B) प्रवेश कर (C) टोल कर (D) सेवा कर (A) Professional tax (B) Entry tax (C) Toll tax (D) Service tax</p>	C	--Select--	<input type="text"/>	<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen <input type="button" value="Submit Objection"/>
64	<p>DDoS का फुल फॉर्म _____ है।</p> <p>(A) डायरेक्ट डिनायल ऑफ़ सर्विस (B) डिटेल्ड डिनायल ऑफ़ सर्विस (C) डिस्ट्रिब्यूटेड डिनायल ऑफ़ सर्विस (D) डिस्ट्रिब्यूटेड डेटा ऑफ़ सर्विस</p> <p>Full form of DDoS is _____. (A) Direct Denial of Service (B) Detailed Denial of Service (C) Distributed Denial of Service (D) Distributed Data of Service</p>	C	--Select--	<input type="text"/>	<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen <input type="button" value="Submit Objection"/>



65	<p>भारत को लुक ईस्ट (पूर्व को ओर देखो) नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है ? (A) यूरोपीय संघ के देशों के साथ संबंधों और व्यवहार में सुधार करना। (B) पूर्वी एशिया के देशों के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाना। (C) दक्षिण-पूर्वी एशिया के साथ आर्थिक और सामरिक संबंधों को मजबूत करना। (D) भारत के भीतर कृषि विकास को बढ़ावा देना। What is the main purpose of India's Look East Policy ? (A) Improve relations and trade with European Union countries. (B) Enhance cultural exchanges and people-to-people contacts with countries in East Asia. (C) Strengthening economic and strategic ties with Southeast Asia. (D) Promote agricultural development within India.</p>	C	--Select--		<p>Choose File No file chosen</p> <p>Submit Objection</p>
66	<p>समीक्षकों द्वारा प्रशंसित नेटफ्लिक्स OTT सीरीज - दिल्ली क्राइम का निर्देशन किसने किया ? (A) हंसल मेहता (B) रिची मेहता (C) विशाल भारद्वाज (D) निखिल आडवाणी Who directed the critically acclaimed Netflix OTT series - Delhi Crime ? (A) Hansal Mehta (B) Richie Mehta (C) Vishal Bharadwaj (D) Nikhil Advani</p>	B	--Select--		<p>Choose File No file chosen</p> <p>Submit Objection</p>
67	<p>प्रसिद्ध पुस्तक 'द रिटर्न ऑफ द नेटिव' किसके द्वारा लिखी गई है ? (A) एम.एम. काया (B) लियो डग्लस (C) थॉमस हार्डी (D) बिल गेट्स Famous book 'The Return of the Native' is written by whom ? (A) M.M. Kaya (B) Lioy Douglas (C) Thomas Hardy (D) Bill Gates</p>	C	--Select--		<p>Choose File No file chosen</p> <p>Submit Objection</p>
68	<p>एलौरा निम्नलिखित में से किस राज्य में एक पवित्र स्थल है ? (A) गुजरात (B) कर्नाटक (C) महाराष्ट्र (D) राजस्थान Elora is a sacred site in which of the following state ? (A) Gujarat (B) Karnataka (C) Maharashtra (D) Rajasthan</p>	C	--Select--		<p>Choose File No file chosen</p> <p>Submit Objection</p>
69	<p>अफ्रीका में कितने देश मौजूद हैं ? How many countries are present in Africa ? (A) 50 (B) 54 (C) 52 (D) 56</p>	B	--Select--		<p>Choose File No file chosen</p> <p>Submit Objection</p>
70	<p>भारत में 'ऑपरेशन ग्रीन हंट' क्या है ? (A) नक्सल विरोधी अभियान (B) मादक पदार्थों को तस्करी विरोधी अभियान (C) एंटी-नाक्सल ऑपरेशन (D) करमौर में अलकवाद विरोधी अभियान What is the 'Operation Green Hunt' in India ? (A) Anti-Naxalite operation (B) Anti-drug trafficking operation (C) Anti-piracy operation (D) Counter-insurgency operation in Kashmir</p>	A	--Select--		<p>Choose File No file chosen</p> <p>Submit Objection</p>
71	<p>गैलीलियोन उपग्रह (या चार चंद्रमा) किस ग्रह के हैं ? (A) शनि ग्रह (B) बृहस्पति (C) अरुण ग्रह (D) नेपच्यून Galilean satellites (or the four moons) belong to which Planet ? (A) Saturn (B) Jupiter (C) Uranus (D) Neptune</p>	B	--Select--		<p>Choose File No file chosen</p> <p>Submit Objection</p>
72	<p>ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट हैं : (A) वर्तमान संपत्ति (B) निवेश (C) स्थायी संपत्ति (D) अमूर्त संपत्ति Trademarks, copyrights and patents are : (A) Current assets (B) Investments (C) Fixed assets (D) Intangible assets</p>	D	--Select--		<p>Choose File No file chosen</p> <p>Submit Objection</p>
73	<p>निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रयोगशाला में नियंत्रित केंद्रीय संलयन प्राप्त करने वाला पहला देश था ? (A) सोवियत संघ (B) फ्रान्स (C) संयुक्त राज्य अमेरिका (D) युनाइटेड किंगडम Which of the following countries was the first to achieve controlled nuclear fusion in a laboratory setting ? (A) Soviet Union (B) France (C) United States of America (D) United Kingdom</p>	C	--Select--		<p>Choose File No file chosen</p> <p>Submit Objection</p>
74	<p>_____ में कंप्यूटर से इनपुट से पहले या उसके दौरान डेटा बदलना शामिल है। (A) डेटा डिडलिंग (B) कैटफिशिंग (C) ई-मेल बॉम्बिंग (D) स्मिशिंग _____ involves changing data prior or during input into a computer. (A) Data diddling (B) Catfishing (C) E-mail bombing (D) Smishing</p>	A	--Select--		<p>Choose File No file chosen</p> <p>Submit Objection</p>
75	<p>डब्ल्यूपीआई (WPI) का पूर्ण रूप है : (A) वाल प्राइस इंडेक्स (B) होल प्रिंट इंडेक्स (C) होलसेल प्राइस इंडेक्स (D) होल प्राइस इंडेक्स The full form of WPI is : (A) Wall Price Index (B) Whole Print Index (C) Wholesale Price Index (D) Whole Price Index</p>	C	--Select--		<p>Choose File No file chosen</p> <p>Submit Objection</p>
76	<p>30 संख्याओं का औसत 1.2 है। उनमें से पहले 20 का औसत 1.1 है और अगले 9 का औसत 1 है, तो अंतिम संख्या क्या है ? The average of 30 numbers is 1.2. The average of the first 20 of them is 1.1 and that of the next 9 is 1. Then the last number is : (A) 4 (B) 5 (C) 4.6 (D) 4.9</p>	B	--Select--		<p>Choose File No file chosen</p> <p>Submit Objection</p>
77	<p>टहराब को छोड़कर बस की गति 66 किमी/घंटा है और इसमें टहराब के साथ बस की गति 55 किमी/घंटा है, तो टहराब पर बस कितने मिनट रुकती है ? Excluding stoppage, the speed of bus is 66 km/hr and including stoppage it is 55 km/hr. How many minutes does the bus stop per min ? (A) 20 (B) 10 (C) 15 (D) 19</p>	B	--Select--		<p>Choose File No file chosen</p> <p>Submit Objection</p>
78	<p>शौची को मात्रा का अनुपात जिसमें शौची की कीमत 40 रुपये/किलोग्राम और 30 रुपये/किलोग्राम है। दोनों शौची को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण की 32 रुपये/किलोग्राम पर बेचने पर कोई लाभ या हानि न हो ? The ratio of quantities of sugar in which sugar costing Rs. 40/kg and Rs. 30/kg. In what ratio both sugar should be mixed so that there is no gain or loss when the mixture is sold at Rs. 32/kg ? (A) 4 : 1 (B) 1 : 4 (C) 2 : 1 (D) 3 : 1</p>	B	--Select--		<p>Choose File No file chosen</p> <p>Submit Objection</p>
79	<p>300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 500 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिये। S.P. of 300 articles is equal to C.P. of 500 articles. Find the loss or profit percentage. (A) 66(2/3)% (B) 24(2/3)% (C) 25(2/3)% (D) 72(2/3)%</p>	A	--Select--		<p>Choose File No file chosen</p> <p>Submit Objection</p>
80	<p>एक साझेदारी व्यवसाय में, A कुल मूल्य के 1/6 के लिए पूंजी का 1/6 भाग निवेश करता है, B कुल मूल्य के 1/4 के लिए पूंजी का 1/4 भाग निवेश करता है और C शेष पूंजी पूरे समय के लिए निवेश करता है, तो 1940 रुपये के लाभ में B का हिस्सा कितना है ? In a partnership business, A invests 1/6th of the capital for 1/6 of the total time, B invests 1/4th of the capital for 1/4 of the total time and C, the rest of the capital for the whole time. Find the share of B, out of a profit of Rs. 1940. (A) Rs. 160 (B) Rs. 180 (C) Rs. 200 (D) Rs. 120</p>	B	--Select--		<p>Choose File No file chosen</p> <p>Submit Objection</p>
81	<p>यदि किसी वस्तु पर लागू मूल्य से 40% अधिक अंकित है। यदि वस्तु के अंकित मूल्य पर x% की छूट दी जाती है, तो 12% का अंतिम लाभ प्राप्त होता है। अब यदि एक नई वस्तु का क्रय मूल्य 2,400 रुपये है और x% लाभ चाहिए है, तो उस नई वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए ? An article is marked 40% above the cost price. If a discount of x% is given on the marked price of the article, then a final profit of 12% is obtained. Now if C.P. of a new article is Rs. 2,400 and x% profit is desired then what should be the selling price of that new article ? (A) Rs. 2,880 (B) Rs. 3,480 (C) Rs. 2,400 (D) Rs. 2,480</p>	A	--Select--		<p>Choose File No file chosen</p> <p>Submit Objection</p>

82	<p>वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 990 और 1330 को विभाजित करने पर क्रमशः 6 और 10 शेषफल प्राप्त होता है : The greatest number which divides 990 and 1330, leaves remainder 6 and 10 respectively is :</p> <p>(A) 15 (B) 20 (C) 24 (D) 35</p>	C	--Select--		<p>Choose File No file chosen</p> <p>Submit Objection</p>
83	<p>यदि 6 छात्रों का औसत भार 50 किग्रा है; 2 छात्रों का औसत भार 53 किग्रा है, और 2 छात्रों का औसत भार 55 किग्रा है, तो सभी छात्रों का औसत भार है : If the average weight of 6 students is 50 kg; that of 2 students is 53 kg; and that of 2 students is 55 kg; then the average weight of all students is :</p> <p>(A) 55 किग्रा (B) 51.6 किग्रा (C) 64 किग्रा (D) 52.5 किग्रा</p>	B	--Select--		<p>Choose File No file chosen</p> <p>Submit Objection</p>
84	<p>एक आदमी ने 80,000 रुपये में एक घोड़ा और एक गाड़ी खरीदी। उसने घोड़े को 10% के लाभ पर और गाड़ी को 5% की हानि पर बेच दिया। उसे अपने पूरे लेनदेन पर 1% का लाभ होता है, तो घोड़े की लागत मूल्य क्या थी? A man bought a horse and a carriage for Rs. 80,000. He sold the horse at a gain of 10% and the carriage at a loss of 5%. He gained 1% on his whole transaction. What is the cost price of the horse ?</p> <p>(A) 18,000 (B) 20,000 (C) 30,000 (D) 32,000</p>	D	--Select--		<p>Choose File No file chosen</p> <p>Submit Objection</p>
85	<p>एक ट्रेन 79.2 किमी/घंटा की गति से चल रही है, यह 7 सेकेंड में एक खम्बे को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। A train is running with a speed of 79.2 km/hr and it crosses a pole in 7 sec. Then find the length of the train.</p> <p>(A) 154 मी (B) 150 मी (C) 118 मी (D) 126 मी</p>	A	--Select--		<p>Choose File No file chosen</p> <p>Submit Objection</p>
86	<p>3 कारों की गति का अनुपात 3 : 4 : 6 है, इन कारों द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात क्या है ? The ratio of speed of 3 cars are 3 : 4 : 6. What is the ratio of time taken by these cars to cover the same distance ?</p> <p>(A) 4 : 3 : 2 (B) 2 : 3 : 5 (C) 3 : 4 : 6 (D) 6 : 4 : 3</p>	A	--Select--		<p>Choose File No file chosen</p> <p>Submit Objection</p>
87	<p>50% और 40% की क्रमिक छूट कितनी एकल छूट के बराबर है ? Successive discounts of 50% and 40% equal a single discount of :</p> <p>(A) 70% (B) 48% (C) 60% (D) 20%</p>	A	--Select--		<p>Choose File No file chosen</p> <p>Submit Objection</p>
88	<p>यदि विक्रय मूल्य का 7% अथवा मूल्य के 8% के बराबर और यदि विक्रय मूल्य का 9% अथवा मूल्य का 2 रुपये से 10% अधिक है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। If 7% of S.P. is equal to 8% of C.P. and if 9% of S.P. is Rs. 2 more than 10% of C.P., then find C.P. and S.P. :</p> <p>(A) 700, 800 (B) 800, 950 (C) 350, 700 (D) 350, 400</p>	A	--Select--		<p>Choose File No file chosen</p> <p>Submit Objection</p>
89	<p>एक विद्यार्थी ने 6 प्रश्नों में 60 अंकों की परीक्षा दी। प्रत्येक प्रश्न-पत्र के लिए अधिकतम अंक एकसमान हैं। इन प्रश्नों में उसके प्रश्नों 5:6:7:8:9:10 के अनुपात में हैं। कुल मिलाकर उसने 60% अंक प्राप्त किए। उसने कितने प्रश्नों में अधिकतम अंकों के 60% से कम अंक प्राप्त किए ? A student appeared in 6 papers. The maximum marks are the same for each paper. His marks in this paper are in the proportion of 5:6:7:8:9:10. Overall he scored 60%. In how many papers he received less than 60% marks ?</p> <p>(A) 4 (B) 5 (C) 2 (D) 3</p>	D	--Select--		<p>Choose File No file chosen</p> <p>Submit Objection</p>
90	<p>39 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 12 दिनों में एक सुरंग को मरम्मत कर सकते हैं, तो 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे ? 39 persons can repair a tunnel in 12 days working 10 hours a day. In how many days will 30 persons working 6 hours a day complete the work ?</p> <p>(A) 14 दिन (B) 15 दिन (C) 20 दिन (D) 26 दिन</p>	D	--Select--		<p>Choose File No file chosen</p> <p>Submit Objection</p>
91	<p>A एक कार्य को 63 दिनों में कर सकता है और B, A को तुलना में 40% अधिक कुशल है, तो उसे कार्य को कसे में B द्वारा लिए गए दिनों की संख्या क्या है ? A can do a piece of work in 63 days and B is 40% more efficient than A. Then the number of days taken by B to do the same work is :</p> <p>(A) 45 दिन (B) 49 दिन (C) 40 दिन (D) 60 दिन</p>	A	--Select--		<p>Choose File No file chosen</p> <p>Submit Objection</p>
92	<p>0.7, 0.35, 1.05 का म.स.प. (HCF) ज्ञात कीजिए। Find the HCF of 0.7, 0.35, 1.05.</p> <p>(A) 0.35 (B) 1.005 (C) 0.07 (D) 0.7</p>	A	--Select--		<p>Choose File No file chosen</p> <p>Submit Objection</p>
93	<p>एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से चक्रवृद्धि व्याज 3280 रुपये है, तो मूल राशि कितनी है ? The compound interest on a certain sum of money for 2 years at 5% is Rs. 3280. Then the sum is :</p> <p>(A) Rs. 32000 (B) Rs. 34000 (C) Rs. 30000 (D) Rs. 36000</p>	A	--Select--		<p>Choose File No file chosen</p> <p>Submit Objection</p>
94	<p>12,000 रुपये पर 9 महीने के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि व्याज, चक्रवृद्धि व्याज कैसाफ है : The compound interest on Rs. 12,000 for 9 months at 20% per annum, interest being compound quarterly is :</p> <p>(A) Rs. 2136 (B) Rs. 1750 (C) Rs. 1891.50 (D) Rs. 2089.70</p>	C	--Select--		<p>Choose File No file chosen</p> <p>Submit Objection</p>
95	<p>संबंधित शब्द खोजें : त्रिकोण : बहुभुज :: वर्ग : ? (A) आयत (B) समवतुर्भुज (C) चतुर्भुज (D) वृत्त Find out the related word : Triangle : Polygon :: Square : ? (A) Rectangle (B) Rhombus (C) Quadrilateral (D) Circle</p>	C	--Select--		<p>Choose File No file chosen</p> <p>Submit Objection</p>
96	<p>यदि शब्द 'RECONCILE' के 4^{थे}, 5^{थे}, 7^{थे} और 8^{थे} अक्षरों से एक सार्थक चार अक्षरों का शब्द बनाया जा सकता है। उन अक्षरों का प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाये जा सकते हैं ? If a meaningful four letters word can be formed from the 4th, 5th, 7th, and 8th letters of the word 'RECONCILE'. Using that letters how many meaningful words can be formed ?</p> <p>(A) तीन (B) चार (C) एक (D) दो</p>	B	--Select--		<p>Choose File No file chosen</p> <p>Submit Objection</p>
97	<p>एक निश्चित कूट भाषा में, 'FLOWER' को 'RFOELW' के रूप में कूटित किया जाता है, तो 'ANIMAL' को इस प्रकार लिखा जाएगा : In a certain code language, 'FLOWER' is coded as 'RFOELW', then 'ANIMAL' will be written as :</p> <p>(A) LANJAM (B) LAJDNM (C) LAJANM (D) LANJAM</p>	C	--Select--		<p>Choose File No file chosen</p> <p>Submit Objection</p>
98	<p>उन विकल्पों को चुनिए जिनमें संख्याएँ इसी संबंध को साझा करती हैं जो दिए गए संख्या युग्म द्वारा साझा किया गया है। Select the option in which the numbers share the same relationship as that shared by the given pair of numbers. 12 : 20 (A) 30 : 42 (B) 25 : 57 (C) 34 : 31 (D) 19 : 33</p>	A	--Select--		<p>Choose File No file chosen</p> <p>Submit Objection</p>

<p>99</p>	<p>पारलानों को पढ़ें और सर्वोत्तम निष्कर्ष/निष्कर्ष का चयन करें जो निहित रूप से धारणाओं का पालन/अनुसरण करता है। धारणाएँ : I अजय श्रेयस के पिता हैं, सुरज श्रेयस के भ्राता हैं। II सीमा श्रेयस की माँ हैं। निष्कर्ष : 1. सीमा अजय की पत्नी हैं। 2. सीमा सुरज की माँ हैं। (A) केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है (B) न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 अनुसरण करता है (C) केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है (D) दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं Read the assumptions and select the best conclusions/conclusion that follow/follows the assumptions definitely. Assumptions : I Ajay is the father of Shreyas, Suraj is the brother of Shreyas. II Seema is the mother of Shreyas. Conclusions : 1. Seema is the wife of Ajay. 2. Seema is the mother of Suraj. (A) Only Conclusion 2 follows (B) Neither Conclusion 1 nor 2 follows (C) Only Conclusion 1 follows (D) Both the Conclusions follow</p>	<p>D</p>	<p>--Select--</p>		<p>Choose File No file chosen Submit Objecton</p>
<p>100</p>	<p>संबंधित शब्द का पता लगाएँ। शल्य चिकित्सक : छुरी :: बढ़ई : ? (A) ब्रश (B) आरि (C) संगमक (D) कैमेरा Find out the related word. Surgeon : Scalpel :: Carpenter : ? (A) Brush (B) Saw (C) Computer (D) Camera</p>	<p>B</p>	<p>--Select--</p>		<p>Choose File No file chosen Submit Objecton</p>
<p>101</p>	<p>निम्नलिखित में से कौन सा आरेख महिलाओं, माताओं और पिताओं के बीच संबंधों को सबसे अच्छे ढंग से दर्शाता है ? Which of the following diagrams best represents the relationship between Women, Mothers and Fathers ? (A) (B) (C) (D) </p>	<p>C</p>	<p>--Select--</p>		<p>Choose File No file chosen Submit Objecton</p>
<p>102</p>	<p>यदि आप पूर्व की ओर मुँह करके खड़े हैं और 270 डिग्री अन्तर्घूर्णन करते हैं, तो अब आप किस दिशा की ओर मुँह करके खड़े हैं ? (A) उत्तर (B) पूर्व (C) पश्चिम (D) दक्षिण If you start facing East and turn 270 degrees anticlockwise, what direction are you facing now ? (A) North (B) East (C) West (D) South</p>	<p>D</p>	<p>--Select--</p>		<p>Choose File No file chosen Submit Objecton</p>
<p>103</p>	<p>निम्नलिखित प्रश्न में, आपको दिए गए शब्द के साथ चार अन्य शब्द दिए गए हैं। उनमें से एक शब्द को दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाना जा सकता है। उस शब्द को पहचानें। दिया गया शब्द : "MACHINES" In the following question, you'll find four other words provided alongside a given word. One of these words cannot be formed using the letters of the given word. Can you identify that word ? Given word : "MACHINES" (A) NAMES (B) CAMEL (C) MESH (D) SEAM</p>	<p>B</p>	<p>--Select--</p>		<p>Choose File No file chosen Submit Objecton</p>
<p>104</p>	<p>नीचे दिया गया बार ग्राफ दो लगातार वर्षों 2006 और 2007 के दौरान एक प्रकाशन कंपनी की छह शाखाओं से पुस्तकों की बिक्री (1000 की संख्या में) दर्शाता है। The bar graph given below shows the sales of books (in 1000s) from six branches of a publishing company during two consecutive years 2006 and 2007. 2006 और 2007 में एक प्रकाशन कंपनी की छह शाखाओं - A1, A2, A3, A4, A5 और A6 से पुस्तकों की बिक्री (हजारों की संख्या में) Sales of Books (in thousand numbers) from Six Branches - A1, A2, A3, A4, A5 and A6 of a publishing Company in 2006 and 2007. दोनों वर्षों के लिए शाखा A2 की कुल बिक्री का दोनों वर्षों के लिए शाखा A4 की कुल बिक्री से अनुपात क्या है ? What is the ratio of the total sales of branch A2 for both years to the total sales of branch A4 for both years ? (A) 6 : 7 (B) 5 : 7 (C) 8 : 9 (D) 7 : 9</p>	<p>D</p>	<p>--Select--</p>		<p>Choose File No file chosen Submit Objecton</p>
<p>105</p>	<p>निम्नलिखित अनुक्रम को ध्यान से पढ़ें और उसके बाद आने वाले प्रश्नों के उत्तर दें। R K 5 9 # B 2 % * E 7 A 8 L \$ 1 4 S V 7 ! C 6 N @ H 1 3 & D दी गई श्रृंखला में अगला पद निर्धारित करें : 5#2, *?8, \$4V, ____ Examine the following sequence closely and respond to the questions that follow. R K 5 9 # B 2 % * E 7 A 8 L \$ 1 4 S V 7 ! C 6 N @ H 1 3 & D Determine the next term in the series : 5#2, *?8, \$4V, ____ (A) L&S (B) H6# (C) 16@ (D) H1&</p>	<p>C</p>	<p>--Select--</p>		<p>Choose File No file chosen Submit Objecton</p>
<p>106</p>	<p>"वे चोरी करने की कोशिश करते हुए रो रोते दृष्टि पकड़े गए", इस संदर्भ में, "रो रोते दृष्टि पकड़े गए" का क्या तात्पर्य है ? (A) अराधन करते हुए पकड़े गए (B) चाल अस्थिति में पकड़े गए (C) दयालुता का कार्य (D) रो रोते से पकड़े गए In the context, "They were caught red-handed trying to steal", what does "caught red-handed" imply ? (A) Caught in the act of committing a crime (B) Found injured (C) Act of kindness (D) Found with red-hands</p>	<p>A</p>	<p>--Select--</p>		<p>Choose File No file chosen Submit Objecton</p>
<p>107</p>	<p>उस आकृति को पहचानें जो पैटर्न को पूरा करती है। Identify the figure that completes the pattern. (A) (B) (C) (D) </p>	<p>B</p>	<p>--Select--</p>		<p>Choose File No file chosen Submit Objecton</p>
<p>108</p>	<p>यदि A%B = A + B - 1, तो 10%2 क्या है ? If A%B = A + B - 1, what is 10%2 ? (A) 12 (B) 20 (C) 5 (D) 11</p>	<p>D</p>	<p>--Select--</p>		<p>Choose File No file chosen Submit Objecton</p>
<p>109</p>	<p>दी गई श्रृंखला में लुप्त अक्षर समूह ज्ञात कीजिए : Find the missing letter cluster in the given series : BYHN, CWKM, EUNL, _____, LQTJ (A) HRPQ (B) GSPK (C) GRPK (D) HSQK</p>	<p>D</p>	<p>--Select--</p>		<p>Choose File No file chosen Submit Objecton</p>
<p>110</p>	<p>निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम बाकी से अलग है ? Which of the following sequences is different from the rest ? a. 1, 4, 9, 16 b. 1, 8, 27, 64 c. 2, 6, 12, 23 d. 1, 16, 81, 256 (A) 2, 6, 12, 23 (B) 1, 16, 81, 256 (C) 1, 4, 9, 16 (D) 1, 8, 27, 64</p>	<p>A</p>	<p>--Select--</p>		<p>Choose File No file chosen Submit Objecton</p>
<p>111</p>	<p>श्रृंखला में लुप्त संख्याएँ (A और B) ज्ञात करें और B - A का मान ज्ञात करें। Find the missing numbers (A and B) in the series and find the value of B - A. 11, 22, 33, A, 55, 66, 77, B (A) 88 (B) 33 (C) 44 (D) 55</p>	<p>C</p>	<p>--Select--</p>		<p>Choose File No file chosen Submit Objecton</p>

112	<p>200 छात्रों के सर्वेक्षण के आधार पर, 140 छात्रों को कोल्ड ड्रिंक्स पसंद हैं, 120 छात्रों को मिक्सचर पसंद है, और 80 छात्रों को दोनों पसंद हैं। कितनी छात्रों को कम से कम एक पेय पसंद है ? Based on a survey of 200 students, 140 students like cold drinks, 120 students like milkshakes, and 80 students like both. How many students like at least one of the drinks ? (A) 140 (B) 180 (C) 75 (D) 200</p>	B	--Select--		Choose File No file chosen Submit Objection
113	<p>एक व्यक्ति 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर 20 मीटर दाईं ओर चलता है, फिर 20 मीटर दाईं ओर चलता है, फिर दोबारा 10 मीटर दाईं ओर चलता है। वह शुरू से अब तक कितनी दूर चला गया है ? (A) 51 मीटर (B) 25 मीटर (C) 45 मीटर (D) 28 मीटर A person moves 10 meters north, then 20 meters to the right, then 20 meters to the right once more, then 10 meters to the right again. How far has he gone from the beginning ? (A) 51 meters (B) 25 meters (C) 45 meters (D) 28 meters</p>	A	--Select--		Choose File No file chosen Submit Objection
114	<p>श्रृंखला 1, 6, 23, 76, _____ में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। Find the next number in the series 1, 6, 23, 76, _____ (A) 148 (B) 198 (C) 237 (D) 274</p>	C	--Select--		Choose File No file chosen Submit Objection
115	<p>यदि RED को UHG के रूप में कोडित किया जाता है, तो BLUE को किस रूप में कोडित किया जाएगा ? If RED is coded as UHG, then BLUE will be coded as : (A) EOHU (B) EOHX (C) FMJIH (D) EOXH</p>	D	--Select--		Choose File No file chosen Submit Objection
116	<p>कार्तिक की वजन में उनका बहन 55 किलो से ज्यादा लेकिन 62 किलो से कम है। उनके पिता कार्तिक से समझ नहीं हैं और उन्हें लगता है कि कार्तिक का वजन 50 किलो से ज्यादा लेकिन 60 किलो से कम है। उसकी बहन का विचार है कि, उसका बहन 58 किलो से अधिक नहीं हो सकता है। यदि सभी अपने अनुमान में सही हैं, तो कार्तिक के विभिन्न संभावित भारों का औसत क्या है ? In Karthik's opinion, his weight is greater than 55 kg but less than 62 kg. His father does not agree with Karthik, and he thinks that Karthik's weight is greater than 50 kg but less than 60 kg. His sister's view is that his weight cannot be greater than 58 kg. If all are correct in their estimation, what is the average of the different possible weights of Karthik ? (A) 60 (B) 59 (C) 58 (D) 57</p>	D	--Select--		Choose File No file chosen Submit Objection
117	<p>निम्न शब्द खोजें। Find the dissimilar word. R54, W68, U63, L36, Y75 (A) U63 (B) Y75 (C) W68 (D) R54</p>	C	--Select--		Choose File No file chosen Submit Objection
118	<p>एक निश्चित कोड में, 'N' को 'J', 'S' को 'D', 'R' को 'O', 'O' को 'P', 'I' को 'K', 'M' को 'Z', 'A' को 'M' और 'G' को 'S' लिखा जाता है, तो उस कोड में 'ORGANISM' कैसे लिखा जाएगा ? In a certain code, 'N' is written as 'J', 'S' as 'D', 'R' as 'O', 'O' as 'P', 'I' as 'K', 'M' as 'Z', 'A' as 'M' and 'G' as 'S'. Then how will 'ORGANISM' be written in that code ? (A) DZMSJPGK (B) PQMKJZDS (C) PQSMJKDZ (D) PQDZSMKJ</p>	C	--Select--		Choose File No file chosen Submit Objection
119	<p>एक पार्टी में एक आदमी, उसकी पत्नी, उसके चार बेटे और उनकी पत्नियों और प्रत्येक बेटे के परिवार में तीन बच्चे शामिल थे। पार्टी में कितने लोग थे ? A party consisted of a man, his wife, his four sons and their wives and three children in each son's family. How many were there at the party ? (A) 22 (B) 23 (C) 18 (D) 20</p>	A	--Select--		Choose File No file chosen Submit Objection
120	<p>एक दिशा सूचक घंटा में, हर दिशा को मूल दिशा से, 135 डिग्री घुमाया जाता है। यदि घुमाव घड़ी की दिशा में लिया जाए तो दक्षिण-पश्चिम किस दिशा में होगा ? (A) उत्तर-पूर्व (B) पूर्व (C) उत्तर (D) उत्तर-पश्चिम In a compass every direction is rotated to 135 degrees from the original direction. In which direction will South-West be if the rotation took towards clockwise direction ? (A) North-East (B) East (C) North (D) North-West</p>	C	--Select--		Choose File No file chosen Submit Objection
121	<p>यदि A और B दो समुच्चय इस प्रकार हैं कि, A में तत्वों की संख्या 20 है, B में तत्वों की संख्या 18 है और A और B दोनों में तत्वों की संख्या 10 है, तो n(A ∪ B) ज्ञात कीजिए। If A and B are two sets such that number of elements in A is 20, number of elements in B is 18 and number of elements in both A and B is 10, find n(A ∪ B). (A) 48 (B) 18 (C) 28 (D) 38</p>	C	--Select--		Choose File No file chosen Submit Objection
122	<p>लुप्त संख्या 1, 12, 144, ..., 20736 ज्ञात कीजिए। Find the missing number 1, 12, 144, ..., 20736. (A) 1782 (B) 1287 (C) 1728 (D) 1278</p>	C	--Select--		Choose File No file chosen Submit Objection
123	<p>M, N, O, P और Q पांच मित्र हैं। उनमें से प्रत्येक को ऊंचाई अलग-अलग है। O, P और N से लंबा है और केवल M और Q से छोटा है। केवल एक व्यक्ति N से छोटा है। सबसे छोटा कौन है ? M, N, O, P and Q are five friends. Each of them has a different height. O is taller than P and N and shorter than M and Q only. Only one person is shorter than N. Who is the shortest ? (A) O (B) N (C) P (D) M</p>	C	--Select--		Choose File No file chosen Submit Objection
124	<p>यदि शब्द TLBSBEAKLA के अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके एक खेल का नाम बनाया जाता है, तो खेल के नाम के दाईं ओर से छठे अक्षर का होगा ? If the name of a game is formed by rearranging the letters of the word TLBSBEAKLA, then what will be the sixth letter from the right end of the name of the game ? (A) B (B) S (C) E (D) T</p>	C	--Select--		Choose File No file chosen Submit Objection
125	<p>3 बजे घड़ी की घंटे का और मिनट की सुइयों के बीच का कोण कितना होता है ? What is the angle between the hour and minute hands of a clock at 3 o'clock ? (A) 50° (B) 75° (C) 90° (D) 30°</p>	C	--Select--		Choose File No file chosen Submit Objection
126	<p>यदि $5\sqrt{3} + \sqrt{243} = 24.249$ है, तो $\sqrt{192} + 15\sqrt{3}$ का मान क्या होगा ? If $5\sqrt{3} + \sqrt{243} = 24.249$, then what will be the value of $\sqrt{192} + 15\sqrt{3}$? (A) 37.84 (B) 40.84 (C) 39.84 (D) 38.84</p>	C	--Select--		Choose File No file chosen Submit Objection
127	<p>प्रश्न चिह्न के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। Find the number that comes in place of the question mark. 1 : 1 :: ? : 169 (A) 13 (B) 18 (C) 14 (D) 15</p>	A	--Select--		Choose File No file chosen Submit Objection
128	<p>48 पुरुष एक काम को 14 दिनों में कर सकते हैं। 12 दिनों में 5 पुरुषों द्वारा किए गए कार्य को मात्रा ज्ञात कीजिए। 48 men can do a work in 14 days. Find the amount of work done by 5 men in 12 days. (A) 9.8% (B) 7.9% (C) 8.9% (D) 13.5%</p>	C	--Select--		Choose File No file chosen Submit Objection
129	<p>6 व्यक्तियों U, V, W, X, Y और Z में से, यह ज्ञात है कि: U कम से कम 3 व्यक्तियों से लंबा है। W, V से लंबा है, जो ठीक 1 व्यक्ति से लंबा है। X, W से छोटा नहीं है। Y, U से लंबा है और X, U से छोटा है। उनमें से चौथे सबसे लंबा कौन है ? Among 6 persons U, V, W, X, Y and Z, it is known that: U is taller than at-least 3 persons. W is taller than V, who is taller than exactly 1 person. X is not shorter than W. Y is taller than U and X is shorter than U. Who is 4th tallest among them ? (A) W (B) X (C) V (D) U</p>	A	--Select--		Choose File No file chosen Submit Objection
130	<p>लिहान पार्क तक पहुँचने के लिए अपने कार्यालय से दक्षिण की ओर 8 मीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और ट्रैफिक सिग्नल तक पहुँचने के लिए 15 मीटर चलता है। फिर वह घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है और कॉफी शॉप तक पहुँचने के लिए 8 मीटर चलता है, वह बाईं ओर मुड़ता है और घर पहुँचने के लिए 8 मीटर चलता है। लिहान के घर के संबंध में कार्यालय किस दिशा में है ? (A) दक्षिण (B) उत्तर (C) पूर्व (D) पश्चिम Lihaan walks 8 m towards South from his office to reach park. Then he takes left and walks 15 m to reach traffic signal. Then he turns 90 degree anti-clockwise direction and walks 8 m to reach coffee shop, he takes left and walks 8 m to reach home. Office is in which direction with respect to Lihaan's home ? (A) South (B) North (C) East (D) West</p>	C	--Select--		Choose File No file chosen Submit Objection

<p>131</p>	<p>दी गई श्रृंखला में से बेमेल को ढूँढें : Find the odd one from the given series : 4, 16, 36, 64, 100, 121, 196, 256 (A) 100 (B) 256 (C) 36 (D) 121</p>	<p>D</p>	<p>--Select--</p>		<p>Choose File No file chosen Submit Objection</p>
<p>132</p>	<p>विषम को खोज करें। Find the odd one. (A) (B) (C) (D) </p>	<p>A</p>	<p>--Select--</p>		<p>Choose File No file chosen Submit Objection</p>
<p>133</p>	<p>कौन-सा शब्द समूह में नहीं है ? (A) केला (B) सेब (C) चेरे (D) गाजर Which word does not belong in the group ? (A) Banana (B) Apple (C) Cherry (D) Carrot</p>	<p>D</p>	<p>--Select--</p>		<p>Choose File No file chosen Submit Objection</p>
<p>134</p>	<p>वह विकल्प चुनें जो बाकियों से भिन्न है। (A) अर्जेंटीना (B) दक्षिण अमेरिका (C) यूरोप (D) उत्तरी अमेरिका Choose the option which is different from the rest. (A) Argentina (B) South America (C) Europe (D) North America</p>	<p>A</p>	<p>--Select--</p>		<p>Choose File No file chosen Submit Objection</p>
<p>135</p>	<p>नदियाँ और धाराएँ समान कैसे हैं ? (A) दोनों रेगिस्तान में पाए जाते हैं (B) दोनों पानी के स्थिर निकाय हैं (C) दोनों पहाड़ से नीचे की ओर बहते हैं (D) दोनों में नमकीन पानी होता है How are rivers and streams similar ? (A) Both are found in deserts (B) Both are static bodies of water (C) Both flow downhill (D) Both contain saltwater</p>	<p>C</p>	<p>--Select--</p>		<p>Choose File No file chosen Submit Objection</p>
<p>136</p>	<p>विकल्प A, B, C और D में से चित्र (X) का सही जल-प्रतिबिंब चुनिए। Choose the correct water-image of figure (X) from alternatives A, B, C and D. (X) </p> <p>(A) (B) (C) (D) </p>	<p>A</p>	<p>--Select--</p>		<p>Choose File No file chosen Submit Objection</p>
<p>137</p>	<p>कंप्यूटर शिक्षा केंद्र में संकाय सदस्यों के चयन के लिए शर्तों पर विचार करें : a. 1 नवंबर, 2023 तक आयु 23 से 28 वर्ष के बीच। b. स्नातक अनुभव या प्रोग्रामिंग अनुभव। c. कम से कम 60% अंकों के साथ कंप्यूटर एप्लिकेशन में पोस्टग्रेजुएट डिग्री। d. इंटरव्यू में 50 में से न्यूनतम 25 अंक। e. यदि उम्मीदवार के पास PG नहीं है तो मामला वरिष्ठ संकाय सदस्य को भेजा जाना चाहिए। f. यदि उम्मीदवार इंटरव्यू में न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं करता है, तो मामले को संभाल के प्रिंसिपल को भेजा जाना है। g. यदि उम्मीदवार अनुभव सीमा को छोड़कर अन्य सभी योग्यताओं को पूरा करता है, तो मामला केंद्र के निदेशक को भेजा जाना है। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर मनीष कुमार के लिए कौन-सी शर्तें सही होती हैं ? मनीष कुमार : M.Sc. इन कंप्यूटर साइंस 62% अंकों के साथ। जन्म तिथि : 10 जुलाई, 1990। कंप्यूटर शिक्षक के रूप में 4 साल का अनुभव। इंटरव्यू में 40% अंक प्राप्त किए। (A) उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना है। (B) डेटा अपर्याप्त है। (C) मामला केंद्र के निदेशक को भेजा जाना है। (D) उम्मीदवार को जूनियर संकाय सदस्य के रूप में चुना जाना है। Consider the conditions for selecting faculty members in a computer education centre : a. Age between 23 to 28 years as of November 1, 2023. b. Work experience or programming experience. c. Postgraduate degree in computer application with at least 60% marks. d. Minimum of 25 marks in the interview out of 50. e. If the candidate does not have PG, the case is to be referred to the senior faculty member. f. If the candidate does not score minimum marks in the interview, the case is to be referred to principal of the institute. g. If the candidate satisfies all other qualifications except the age limit, the case is to be referred to the director of the centre. Which course of action should be taken for Manish Kumar based on the following information? Manish Kumar : M.Sc. in Computer Science with 62% marks. Date of birth : July 10, 1990. 4 years of experience as a computer teacher. Obtained 40% marks in the interview. (A) Candidate is not to be selected (B) Data is inadequate (C) Case is to be referred to the director of the centre (D) Candidate is to be selected as a junior faculty member</p>	<p>A</p>	<p>--Select--</p>		<p>Choose File No file chosen Submit Objection</p>
<p>© All rights reserved</p>					
<p>138</p>	<p>ज्ञात कौन-से कि, आकृति (X) में दिए गए टुकड़ों से कौन-सी आकृति बनाई जा सकती है ? Find out which of the figures can be formed from the pieces given in figure (X) ? (X) </p> <p>(A) (B) (C) (D) </p>	<p>D</p>	<p>--Select--</p>		<p>Choose File No file chosen Submit Objection</p>
<p>139</p>	<p>अगले को खोजें। Find the next one. </p> <p>(A) (B) (C) (D) </p>	<p>D</p>	<p>--Select--</p>		<p>Choose File No file chosen Submit Objection</p>
<p>140</p>	<p>शिक्षकों और छात्रों सहित 1280 व्यक्तियों का एक समूह एक सम्मेलन में भाग ले रहा है। यदि प्रत्येक 15 छात्रों के लिए, एक शिक्षक है, तो समूह में कितने शिक्षक हैं ? A group of 1280 individuals, consisting of teachers and students, is attending a conference. For every 15 students, there is one teacher. How many teachers are in the group ? (A) 80 (B) 85 (C) 70 (D) 75</p>	<p>A</p>	<p>--Select--</p>		<p>Choose File No file chosen Submit Objection</p>
<p>141</p>	<p>विषम चुनें। Find the odd one out. (A) (B) (C) (D) </p>	<p>A</p>	<p>--Select--</p>		<p>Choose File No file chosen Submit Objection</p>

<p>142</p>	<p>आकृति में लुप्त स्थान पर निम्नलिखित में से कौन-सी आकृति आएगी ? Which of the following figures will come in the missing place in the below figure ?</p> 	<p>D</p>	<p>--Select--</p>	<p><input type="text"/></p>	<p><input type="button" value="Choose File"/> No file chosen <input type="button" value="Submit Objection"/></p>
<p>143</p>	<p>सदृश्य पूरा करें : वर्षा : बाढ़ :: सूखा : _____ (A) तूफान (B) उपज (C) अत्यधिक (D) अकाल Complete the analogy : Rain : Flood :: Drought : _____ (A) Storm (B) Harvest (C) Abundance (D) Famine</p>	<p>D</p>	<p>--Select--</p>	<p><input type="text"/></p>	<p><input type="button" value="Choose File"/> No file chosen <input type="button" value="Submit Objection"/></p>
<p>144</p>	<p>निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या को पहचान करें। Identify the incorrect number in the following series. 12, 10, 6, 1, -8, -18 (A) 10 (B) -18 (C) 1 (D) 12</p>	<p>C</p>	<p>--Select--</p>	<p><input type="text"/></p>	<p><input type="button" value="Choose File"/> No file chosen <input type="button" value="Submit Objection"/></p>
<p>145</p>	<p>एक खेल में, प्रत्येक खिलाड़ी 100 अंकों से शुरू होता है। प्रत्येक दौर में, एक खिलाड़ी अंक खो सकता है। 5 दौर के बाद, ऐलिस के 130 अंक हैं, बॉब के 90 अंक हैं, चार्ली के 120 अंक हैं और डेविड के 110 अंक हैं। यदि डेविड ने पहले 3 दौर में 30 अंक प्राप्त किए, तो आंशिक 2 दौर में उसने कितने अंक गवाए ? In a game, each player starts with 100 points. In each round, a player can gain or lose points. After 5 rounds, Alice has 130 points, Bob has 90 points, Charlie has 120 points, and David has 110 points. If David gained 30 points in the first 3 rounds, how many points did he lose in the last 2 rounds ? (A) 20 (B) 30 (C) 10 (D) 40</p>	<p>A</p>	<p>--Select--</p>	<p><input type="text"/></p>	<p><input type="button" value="Choose File"/> No file chosen <input type="button" value="Submit Objection"/></p>
<p>146</p>	<p>एक स्कूल स्पोर्ट्स क्लब में, 25 छात्रों ने टेबल टेनिस एकल टूर्नामेंट में भाग लेने का फैसला किया। यदि हर बार जब कोई छात्र मैच हारता है, तो वे टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं, तो विजेता का निर्धारण करने के लिए आवश्यक मैचों की न्यूनतम संख्या क्या है ? In a school sports club, 25 students decided to participate in a table tennis singles tournament. Each time a student loses a match, they are eliminated from the tournament. What is the minimum number of matches required to determine the winner ? (A) 26 (B) 27 (C) 24 (D) 25</p>	<p>C</p>	<p>--Select--</p>	<p><input type="text"/></p>	<p><input type="button" value="Choose File"/> No file chosen <input type="button" value="Submit Objection"/></p>
<p>147</p>	<p>श्रृंग-सेक्शन का आकार क्या है, जब एक कोन को उसकी स्लान्ट हाइट के समानांतर एक प्लेन काट दिया जाता है ? (A) वर्कल (B) हाइपरबोला (C) पैरबोला (D) एलिप्स What is the shape of the cross-section, when a cone is cut by a plane parallel to its slant height ? (A) Circle (B) Hyperbola (C) Parabola (D) Ellipse</p>	<p>C</p>	<p>--Select--</p>	<p><input type="text"/></p>	<p><input type="button" value="Choose File"/> No file chosen <input type="button" value="Submit Objection"/></p>
<p>148</p>	<p>एक नवीकरणीय और गैर-नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत अंतर है क्योंकि _____। (A) गैर-नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत अंधेरे ऊर्जा स्रोतों की तुलना में अधिक पर्यावरण के अनुकूल हैं। (B) गैर-नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सूर्य से प्राप्त होते हैं, जबकि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत पृथ्वी से प्राप्त होते हैं। (C) नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को समय के साथ स्वाभाविक रूप से फिर से धरा जा सकता है, जबकि गैर-नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं कर सकते। (D) नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत परिमित हैं, जबकि गैर-नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत अनंत हैं। A renewable and non-renewable energy source are different because _____. (A) Non-renewable energy sources are more environmentally friendly than renewable energy sources. (B) Non-renewable energy sources are derived from the Sun, while renewable energy sources are derived from the Earth. (C) Renewable energy sources can be replenished naturally over time, while non-renewable energy sources cannot. (D) Renewable energy sources are finite, while non-renewable energy sources are infinite.</p>	<p>C</p>	<p>--Select--</p>	<p><input type="text"/></p>	<p><input type="button" value="Choose File"/> No file chosen <input type="button" value="Submit Objection"/></p>
<p>149</p>	<p>दिए गए चित्र में त्रिभुजों (ट्रयंगल्स) की संख्या दूँटें। Find out the number of triangles in the figure.</p> 	<p>B</p>	<p>--Select--</p>	<p><input type="text"/></p>	<p><input type="button" value="Choose File"/> No file chosen <input type="button" value="Submit Objection"/></p>
<p>150</p>	<p>यदि A + B का अर्थ है कि A, B का भाई है; A x B का अर्थ है कि A, B का पिता है और A - B का अर्थ है कि A, B की बहन है, निम्नलिखित में से कौन-सा संबंध दर्शाता है कि I, K की बहनो है ? If A + B means A is the brother of B; A x B means A is the father of B and A - B means A is the sister of B, which of the following relations shows that I is the niece of K ? (A) Z - I x Y + K (B) K x Y + I - Z (C) K + Y + Z - I (D) K + Y x I - Z</p>	<p>D</p>	<p>--Select--</p>	<p><input type="text"/></p>	<p><input type="button" value="Choose File"/> No file chosen <input type="button" value="Submit Objection"/></p>